

2036 Penang Sangam Primary School
Year 6
English
Worksheet 8 Solution

Activity: 1

Re-write these sentences. Shorten the words and then put in the apostrophes where letters are missing.

1. Do not hit Renuka.
Don't hit Renuka.
2. They have bought two dancing dolls.
They've bought two dancing dolls.
3. I am full.
I'm full.
4. He is fully responsible.
He's fully responsible.
5. There is a strange cat in my yard.
There's a strange cat in my yard.
6. I will punctuate this sentence.
I'll punctuate this sentence.
7. You have told me all I need to know.
You've told me all I need to know.
8. Pate did not play last night.
Pate didn't play last night.
9. I have bought two sandwiches for my lunch.
I've bought two sandwiches for my lunch.
10. It is his fault.
It's his fault.

Strand	Measurement
Sub- Strand	Length/ Area
Content Learning Outcome	Demonstrate and estimate the relationship of units in measuring lengths, distance, perimeter and the area using metric units for 2D shapes.

Activities

Complete these conversions.

<p>a. $200\text{cm} = \underline{2} \text{ m}$</p> <p>$100\text{cm} = 1\text{m}$</p> <p>$200 \div 100$ $2 \div 1 = 2\text{m}$</p>	<p>b. $1500\text{m} = \underline{1.5} \text{ km}$</p> <p>$1000\text{m} = 1\text{km}$</p> <p>$1500\text{m} \div 1000$ $15 \div 10$ $15.$ $15 \div 10 = 1.5\text{km}$</p>
<p>c. $70\text{mm} = \underline{7} \text{ cm}$</p> <p>$10\text{mm} = 1\text{cm}$</p> <p>$70 \div 10$ $7 \div 1 = 7\text{cm}$</p>	<p>d. $1500\text{m} = \underline{150000} \text{ cm}$</p> <p>$100\text{cm} = 1\text{m}$</p> <p>$1500 \times 100 = 150000\text{cm}$</p>

2036 Penang Sangam Primary School
Year 6
Healthy Living
Worksheets 8- Solution

<u>Strand</u>	Safety
<u>Sub- Strand</u>	Community Safety
<u>Content Learning Outcome</u>	Identify and discuss endemic that arises after natural disasters and ways to prevent and manage them.

Activities

1. List down four diseases that arises from natural disasters.
 - **Dengue fever**
 - **Typhoid**
 - **Leptospirosis**
 - **Diarrhoea**
2. List down three ways of preventing these diseases.
 - **Destroy mosquito breeding places.**
 - **Boil drinking water.**
 - **Wear proper outfit e.g; wear gumboots, hand gloves when doing work outside in the farm or handling animals.**
3. Which voluntary organizations contributes in natural disaster relief work?
 - **Red Cross**
 - **DISMAC**
 - **St. Johns**
 - **Hare Krishna Movements**

Questions and Answers

१. कविता के अनुसार कवि को क्या अच्छा लगता है ?

कविता के अनुसार कवि को फूलों का मुस्काना और उनका गुणगाना अच्छा लगता है ।

२. कड़ी धूप में फूल को क्या होता है ?

कड़ी धूप में फूल कुम्हला जाते हैं ।

३. ओस कितने देर तक फूलों पर रहती है ?

ओस छन भर/ थोड़ी देर तक फूलों पर रहती है ।

४. कट जाने पर भी फूल क्या करता रहता है ?

कट जाने पर भी फूल हँसता रहता है ।

५. कविता के अनुसार कवि फूलों से क्या सीखना चाहता है ?

कविता के अनुसार कवि फूलों से उनकी तरह मुस्कुराना सीखना चाहता है ।

2036 Penang Sangam Primary School
Year 6
Social Studies
Worksheet 8 Solution

Activity: 1 Answer the following questions.

1. How many islands make up the Fiji group?
300 islands.
2. What type of transport do the people of the smaller islands use to reach the two main islands.?
People mostly travel by ships or boats.
3. Name the four divisions that the Fiji group is divided into.
Central, Western, Northern and Eastern division.
4. Name the two largest islands in Fiji.
Viti Levu and Vanua Levu.
5. On which island is the capital city of Fiji located?
Viti Levu.

2036 PENANG SANGAM PRIMARY SCHOOL

YEAR 6

NA VOSA VAKAVITI

WORKSHEET 8 – SOLUTION

Cakacaka lavaki

1. Sa dua na i kasi
2. Sa dua na tuatua
3. Sa dua na bi
4. Sa dua na dali
5. Sa dua na vulo

2036 Penang Sangam Primary School
Elementary Science
Year 6
Worksheet 8 - Solution

Questions and Answers

1. List down the name of the process beside each change

- a) Solid changing to liquid - **Melting** b) Gas changing to liquid – **Condensation**
c) Solid changing to gas - **Sublimation** c) Liquid changing to solid – **Freezing**

2. Write down a real life example of each process below

- a) Freezing – **water changing to ice**
b) Melting – **ice changing to water**
c) Sublimation – **solid air freshener disappears after a few weeks. (camphor, mothballs)**
d) Vaporization (evaporation) – **water changing to water vapor (steam)**